

1 अक्टूबर, 1976 से 31 मार्च, 1977 की अवधि में सीमेंट पर देय मूल्य निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	मूल्य प्र०मी०टन	1-10-76 से 31-12-76 रुपये	1-1-77 से 26-1-77 रुपये	27-1-77 से 31-1-77 रुपये	1-2-77 से 31-3-77 रुपये
1.	गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूल्य	214.65	214.65	214.65	231.65
2.	पैकिंग प्रभार	40.94	40.95	40.95	40.95
3.	उत्पादन शुल्क	82.00	82.00	65.00	65.00
योग :		337.59	337.60	320.60	337.60

इससे यह पता चलेगा कि समय समय पर रेल भाड़े में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए गन्तव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 27 जनवरी, 1977 से सीमेंट के उत्पादन शुल्क में 17 रु० प्रति मी० टन के हिसाब से कमी कर दी गई है। उक्त समायोजन उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिर बनाये रखने के विचार से किया गया था।

Census and Steps taken to bring the Sick and Closed Mills in working condition

1985. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have made any census of the existing industrial units in the village, rural, small scale and medium sectors;

(b) if so, how many of them are actually working, how many are on the sick list and how many have been closed down; and

(c) whether any steps are being taken to revive them and put them back in healthy working condition?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir. The Government conducted a Census of Small Scale Industries in 1973-74 with reference year 1972 for collection of data.

(b) Does not arise.

(c) For reviving sick units a Committee has been constituted in each State on which the State Director of Industries, Small Industries Service Institute, Nationalised banks, Financial Corporations and Associations of small scale industries are represented. The Committee examines the problems of sick and closed units and provides them integrated assistance to bring them back to health.

Constitution of Expert Committee on construction of Thermal Power Projects

1986. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have constituted Expert Committee to consider the possibility of reducing the construction time of the thermal power projects in the country;